

प्रेषक,

अजय विक्रम सिंह,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,  
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान् महा निबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

विषय-

वाहन संख्या-यू0पी0-32 जी जेड-7010 उपहार स्वरूप लिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत करना है कि मेरी पत्नी अपने माता-पिता की इकलौती सन्तान हैं। मेरी पत्नी के पिताजी का देहान्त दिनांक-10.09.2020 को हो गया है। वाहन संख्या-यू0पी0-32 जी जेड 7010, जो कि उनके पिता के नाम पंजीकृत थी, मेरी पत्नी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के फलस्वरूप मेरी पत्नी की माता श्रीमती सुनीति सिंह के नाम वर्तमान में पंजीकृत है। उक्त वाहन को मेरी पत्नी की माता मुझे उपहारस्वरूप देना चाहती हैं।

अतः महोदय से सादर प्रार्थना है कि वाहन को उपहारस्वरूप ग्रहण किये जाने के सन्दर्भ में अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे ग्रहण किया जा सके।

सादर!

भवदीय,

*Asanulicram*

(अजय विक्रम सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,  
सी0बी0आई0, पश्चिम, लखनऊ।

दिनांक-02.11.2020